



Benetech Expands Bookshare's International Reach in India

बेनेटेक ने भारत में बुकशेयर की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच का विस्तार किया

दृष्टिहीन, अल्प दृष्टि और डिस्लेक्सिया सहित अन्य बाधाओं वाले लोगों के लिए 390,000 पुस्तकें उपलब्ध हैं।

पालो अल्टो, कैलिफोर्निया - 27 जून, 2018 - सामाजिक अच्छाई का लिये अग्रणी गैर-लाभकारी सॉफ्टवेयर कंपनी बेनेटेक ने भारत में पढ़ने की बाधाओं वाले लोगों के लिए बुकशेयर ईबुक लाइब्रेरी को बढ़ाने के लिए चल रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के एक बड़े विस्तार की घोषणा की। स्वतंत्र होने, शिक्षा और रोजगार हासिल करने और पूर्ण जीवन जीने के लिए, विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए एवं दुनिया भर में बुकशेयर के लाभों को बढ़ाने के लिए बेनेटेक प्रतिबद्ध है।

वाइस प्रेसिडेंट (एजुकेशन) ब्रैंड टर्नर कहते हैं कि "प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित बीसवीं शताब्दी में रहने का मतलब विकलांग लोगों के लिए साक्षरता और शिक्षा के बराबर और समान अवसर होने चाहिए।" "सौभाग्य से, बेनेटेक 2008 से ही भारत में सुलभ किताबें उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है, और हमने 3,000 से अधिक अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु के साथ 13,000 से अधिक सुलभ पुस्तकों का संग्रह एवं बुकशेयर सदस्यों की मदद करने वाले भागीदारों और एक ठोस पारिस्थितिक-तंत्र का एक शक्तिशाली गठबंधन बनाया है। अतिरिक्त धन हमें भारत में विकलांग लोगों के लिए और भी किताबें लाने में सक्षम बनाता है। "

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया भर में अनुमानित 285 मिलियन लोग दृष्टिहीन हैं, जिनमें से 90% विकासशील देशों में रहते हैं। वैश्विक स्तर पर, इस आबादी के आधे से भी कम बच्चों को शिक्षा मिलती है। दृष्टिबाधिता और सीखने की (अधिगम) अक्षमता वाले बच्चे जो मानक प्रिंट को पढ़ने में असमर्थ हैं, कई बाधाओं का सामना करते हैं। कई बार कक्षाओं में 'पढ़ने वाली सुलभ सामग्री' की कमी होती है जो छात्रों को प्रगति करने और अपनी गति से सीखने की अनुमति देती है। भारत जैसे विकासशील देशों में ये बाधाएं कई गुणा हो जाती हैं। भारत में बेनेटेक का काम बुकशेयर इंटरनेशनल के साथ इन चुनौतियों का सामना करना है। वर्ल्ड विजन, यू. एस. ए. आई. डी., ऑस्ट्रेलियाई सरकार और गूगल द्वारा वित्त पोषित पिछले कार्य के समान इस नई पहल, जिसे लैवेल फंड फॉर द ब्लाइंड द्वारा वित्त पोषित किया गया है, भारत में विशेष रूप से स्कूल जाने वाले बच्चों की आबादी को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाती है। यह परियोजना, स्थानीय स्कूली पाठ्यक्रम को बुकशेयर में रखेगी, संग्रह में अधिक स्थानीय भाषा की किताबें जोड़ने, अधिक पुस्तकालय स्थापित करेगी एवं शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगी। साथ ही साथ हिंदी, बंगाली, मराठी और गुजराती समेत विभिन्न भाषाओं में वेबसाइट बनायेगी। भारत में विकलांग लोगों के भुगतान ना करने की क्षमता के बावजूद बुकशेयर की सदस्यता मुफ्त में उपलब्ध होगी।

एशिया और अफ्रीका में विकलांगता विशेषज्ञ और बुकशेयर प्रोग्राम मैनेजर डॉ. होमियार मोबेदजी कहते हैं, "अक्षमता वाले छात्र मोबाइल फोन पर पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करके और किसी भी समय, कहीं भी पढ़ने की सामग्री तक पहुंचने के लिए बुकशेयर का उपयोग करते हैं।" "इस पहल ने समावेशी शिक्षा के सपने को एक हकीकत बना दिया है, जहां पढ़ने की बाधा वाले छात्र मुख्यधारा की कक्षा में पढ़ सकते हैं। भारत में हजारों छात्रों को इस तकनीक क्रांति से लाभान्वित किया है। यह उस ज्ञान तक पहुंच प्रदान करता है जो परंपरागत तरीकों का उपयोग करके संभव नहीं था। "

भारत वो पहला देश है जिसने दृष्टिहीनता या प्रिंट अक्षमता से प्रभावित लोगों के लिए प्रकाशित कार्यों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए मराकेश संधि की पुष्टि की है। यह विश्व में सुलभ सामग्री के तेजी से विकास के माध्यम से लाखों व्यक्तियों के जीवन को कैसे बदलता है का एक माडल है। स्थानीय भाषा में वेबसाइटों की वजह से बुकशेयर इंडिया लाइब्रेरी हेतु बेनेटेक का दृष्टिकोण सफल हो रहा है। अगला कदम बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और नेपाल समेत पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों में समान पुस्तकालय स्थापित करना है।

[भारत में शिक्षा और साक्षरता तक पहुंच बढ़ाने के लिए बेनेटेक के कार्य के समर्थन करने में हमसे जुड़ें।](#)

View full press release in English: [Benetech Expands Bookshare's International Reach in India](#)

Contact:

Dr. Homiyar Mobedji

Disability Expert, Program Management [Asia & Africa]

विकलांगता विशेषज्ञ, कार्यक्रम प्रबंधन [एशिया और अफ्रीका]

Mobile: +91 7875466344

E-mail: Homiyarm@benetech.org

Dr.homiyar@gmail.com

Skype ID: dr.homiyarmobedji

LinkedIn: <http://www.linkedin.com/in/drhomiyar>

[Benetech](#)

480 S. California Ave., Suite 201

Palo Alto, CA 94306-1609, USA